



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1267]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2006/आश्विन 28, 1928

No. 1267]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2006/ASVINA 28, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1806(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1745(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्रप्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 के 216.000 कि.मी. से 252.000 कि.मी. (नन्दीगाम—इब्राहिमपटनम सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 5 जनवरी, 2006 को "ईनाडू" और "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" दोनों में प्रकाशित किये गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 के 216.000 कि.मी. से 252.000 कि.मी. (नन्दीगाम - इब्राहिमपटनम सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्ग मीटर)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कृष्णा	1. नन्दीगाम	(1) नन्दीगाम	867/1ए 1	निजी	शुष्क	1287	मुलकलपल्लि तिरुपतम्मा, अन्ने प्रसाद, कापा भानु प्रसाद
				865/1 बी	निजी	शुष्क	123	शाकामूरि वेकटा, श्रीनिवासे वर प्रसाद
				645/1सी 1	निजी	शुष्क	914	तोटा प्रकाश राव
				645/3सी1	निजी	शुष्क	208	पोपूरि शिव राम कृष्णय्या, पोपूरि रामकोटेश्वर राव
				646/1सी3ए	निजी	शुष्क	841	शेक नागुर मीरा, एलापोगु लाजर, एलापोगु सवेश्वर राव
			(2) अड्थावरम	5/1बी	निजी	शुष्क	75	वसंत हेमावती, पत्नी नागेश्वरराव पादिलि नरसिम्ह राव
				110/1बी1बी	निजी	नम	1257	चुंडुकोटि सूर्य प्रकाश राव
				110/6बी	निजी	नम	13	कंदुला पारय्या
				110/7बी 1	निजी	नम	364	रामिरेडडी नरसिंह राव
				110/8बी1	निजी	नम	228	मदुकूरि अंजनेयुलु
				110/9बी 1	निजी	नम	114	मदुकूरि नरसिम्ह राव
				91/1बी2ए	निजी	नम	1170	मदुकूरि सुब्बा राव, मदुकूरि रामा राव, मदुकूरि सातय्या, मदुकूरि वेकटेश्वर राव, चलसानि वेकटे रामाकृष्णा राव, मारेल्ला तारका वीरा ब्रह्मचारी
				91/2ए2	निजी	नम	157	मदुकूरि सत्यनारायणा मदुकूरि वेकटेश्वरुलु, मदुकूरि वेकटेश्वरराव

				89/2ए	निजी	नम	316	पुत्र -समाराव चुंदरु कमलम्मा चुंदरु आनंदराव चुंदरु नागेंद्रम्मा और पुत्रों
	2.कांचीकाचेरला	(1)कीसरा		32/1बी	निजी	शुष्क	159	चेरुकुमिल्ली भासकरराव गौरनेनि अजय कृष्णा
				35/1सी1बी	निजी	शुष्क	5097	ओ, रविन्द्र बाबु मुत्तवरेपु सुधारानी मुक्कापाटि रवि कोलनाटि रामाराव गागाडा श्रीनिवासुलु कासानि नरसिम्ह राव रायि वेंकटादि नायुडु
		(2) कांचीकाचेरला		292/1बी	निजी	शुष्क	360	एम.वि.मुरली कृष्णा
				278/3बी1	निजी	शुष्क	915	मददिनेनि नागेंद्रम, कालवा बासु देव राव, गररा उषारानी इत्यादि
				540/1ए1ए	निजी	शुष्क	335	कुररा पुष्पा रानी कुररा बाबु राव
				540/2ए1	निजी	शुष्क	82	कुररा बाबु राव
				540/1ए3ए	निजी	शुष्क	591	कुररा बाबु राव
				546/1ए 2	निजी	शुष्क	156	कुररा अप्पा राव
				546/3ए पूर्ण	निजी	शुष्क	10	कुररा नागेश्वरराव
				546/4ए2	निजी	शुष्क	272	कुररा अप्पा राव
				546/6बी	निजी	शुष्क	122	कुररा अप्पा राव
				546/7ए पूर्ण	निजी	शुष्क	240	कुररा नागेश्वर राव
				546/8ए पूर्ण	निजी	शुष्क	230	कुररा नागेश्वर राव
				546/9बी	निजी	शुष्क	265	कुररा नागेश्वर राव
				546/10ए2	निजी	शुष्क	491	कुररा नागेश्वर राव
				546/11बी	निजी	शुष्क	297	कुररा नागेश्वर राव
				546/12बी 2	निजी	शुष्क	587	कुररा नागेश्वर राव
				636/बी1सी1बी	निजी	शुष्क	473	कुचि बूचि वेंकटेश्वरराव
				636/बी 1ए 2	निजी	शुष्क	281	कुररा शिवरामाकृष्ण प्रसाद (नानि)
				636/बी 1ए 3	निजी	शुष्क	243	पर्स रामचंदर आनंद मे0 स्वर्णा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
				636/बी 1डी1बी	निजी	शुष्क	932	कुचि बूचि वेंकटेश्वरराव
				636/बी 1बी	निजी	शुष्क	1012	मे0 भूमि हाइवे

			पूर्ण				प्राइवेट लिमिटेड
			635/2सी2	निजी	शुष्क	652	दोनेपूडि सौजन्या मे0 भूमि हाइवे प्राइवेट लिमिटेड
			629/2ए 2	निजी	शुष्क	1155	कुररा सरोजिनी प्रतिपाटि लक्ष्मण राव
			629/3बी	निजी	शुष्क	99	कुररा सत्यनारायणा राव
		(3) परितला	659-4बी1पूर्ण	निजी	नम	988	शेक आब्बास, निम्मगड्डा विंदा पुत्रिका कृष्णा प्रसाद
			659/3सी2	निजी	नम	113	शेक अब्बास, निम्मगड्डा विंदा पुत्रिका कृष्णा प्रसाद
	3.इब्राहिमपटनम	(1) कचावरम	16/6बी	निजी	शुष्क	444	ग्रीन स्टार रियल स्टेट, विजयवाडा
			16/9बी	निजी	शुष्क	159	ग्रीन स्टार रियल स्टेट, विजयवाडा
			17/2बी	निजी	शुष्क	226	नेक्कलमपूडि रामबाबु
			35/2बी1	निजी	शुष्क	272	सज्जा रामामोहनराव और बगैरा
		(2) केथनाकोंडा	84/2बी1	निजी	गाँव जगह	198	अर्जा वेंकटपति राव पिस्का प्रेयर हाल जगह
			84/1बी1	निजी	शुष्क	132	पामुलापाटि विश्वेश्वरराव
			85/6बी 1	निजी	शुष्क	432	वीरपनेनि भाग्यलक्ष्मी
			86/2डी3ए	निजी	शुष्क	77	नादेड्ला श्री रमणी
			86/3बी1	निजी	शुष्क	603	नादेड्ला श्री रमणी
			86/7बी1	निजी	शुष्क	789	कोल्ला सुब्बम्मा (ऐलियास) सूर्यकुमारी
			89/1बी1	निजी	शुष्क	741	निम्मागड्डा चलपति राव नादेड्ला रवींद्र कुमार
			89/2बी1	निजी	शुष्क	202	नादेड्ला रवींद्र कुमार
		(3) जेमी मचावरम	40/1बी1	निजी	शुष्क	1288	निम्मागड्डा कोडलराव वेंपराळा कोटेश्वर राव
			41/1ए2ए	निजी	शुष्क	580	वेंपराळा श्रीनिवास राव मल्लिनीहु भारथी, पत्नी नदेश्वरराव
			41/1बी2ए	निजी	शुष्क	1089	निम्मगड्डा सत्यनारायणा निम्मगड्डा अप्पाराव

								निम्मागड्डा पदमनामा राव निम्मागड्डा कौंडलराव
				41/2बी1	निजी	शुष्क	638	मिक्किलिनेनि सरला कोगटि सर्वय्या
			(4) मुलापाडु	28/2बी1	निजी	शुष्क	744	अट्लूरि गीता रवि राज्यलक्ष्मी पाटिबंडला श्रीनिवास राव
			(5) इब्राहिमपट्टनम	107/2ए	निजी	शुष्क	1302	त्रिपुरांतका स्वामिवारु
				104/1बी1	निजी	शुष्क	1445	वीरपनेनि चक्रधर राव कोरिटाला वसुमति पत्नी - सम्बाशिवराव
				117/1ए2ए	निजी	शुष्क	71	आलेटि मुरली

[फा. सं. भारासप्रा/11014/3ए(1)/2005/सारा-9/एपी/तक./म.प्र.(सी.के.-I)]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2006

S.O.1806(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1745 (E), dated the 12th December, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building, maintenance, management and operation of National Highway No.9 on the stretch of land from Km.216.000 to Km.252.000 (Nandigama-Ibrahimpatnam Section) in Krishna District in the State of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Eenadu" and "The New Indian Express", both dated the 5th January, 2006 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

3370 GI/06-2

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 216.000 to Km 252.000 (Nandigama-Ibrahimpatnam Section) on the National Highway No.9 in the State of Andhra Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Hectare or Sqms)	Name of the land owner / interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Krishna	1. Nandigama	(1) Nandigama	867/1A1	Private	Dry	1287	Mulakalapalli Thirupathamma, Anne Prasad, Kapa Bhanu Prasad
				865/1B	Private	Dry	123	Sakamuri Venkata Srinivasa Vara Prasad
				645/1C1	Private	Dry	914	Thota Prakasa Rao
				645/3C1	Private	Dry	208	Popuri Siva Rama Krishnayya
				646/1C3A	Private	Dry	841	Popuri Ramakoteswara Rao
			(2) Aithavaram	5/1B	Private	Dry	75	Shaik Nagur Meera Ilapogu Lazar Ilapogu Sarveswara Rao
				110/1B1B	Private	Wet	1257	Vasantha Hymavathi W/o Nageswara Rao Podili Narasimha Rao
				110/6B	Private	Wet	13	Chundrukoti Surya Prakasa Rao
				110/7B1	Private	Wet	364	Kandula Paraiah
				110/8B1	Private	Wet	228	Ramireddi Narasimha Rao
				110/9B1	Private	Wet	114	Maddukuri Anjaneyulu
				91/1B2A	Private	Wet	1170	Maddukuri Narasimha Rao
				91/2A2	Private	Wet	157	Maddukuri Subba Rao Maddukuri Rama Rao Maddukuri Seethaiah Maddukuri Venkateswara Rao Chalasani Venkata Rama Krishna Rao Marella Taraka Veera Brahmmachari
				89/2A	Private	Wet	316	Maddukuri Satyanarayana Maddukuri Venkateswarlu Maddukuri Venkateswara Rao S/o Rama Rao
								Chundru Kamalamma Chundru Ananda Rao Chundru Nagendramma & Sons
		2. Kanchikacherla	(1) Keesara	32/1B	Private	Dry	159	Cherukumilli Bhaskara Rao
				35/1C1B	Private	Dry	5097	Gourneni Ajaya Krishna O. Ravindra Babu Muthavarapu Sudha Rani Mukkapati Ravi Kolnati Rama Rao Gogada Srinivasulu Kasani Narasimha Rao Raayi Venkatadri Naidu

		(2) Kanchikacherla	292/1B	Private	Dry	360	M.V.Murali Krishna
			278/3B1	Private	Dry	915	Maddineni Nagendram Kalva Vasu Deva Rao Garra Usha Rani etc
			540/1A1A	Private	Dry	335	Kurra Pushpa Rani Kurra Babu Rao
			540/2A1	Private	Dry	82	Kurra Babu Rao
			540/1A3A	Private	Dry	591	Kurra Babu Rao
			546/1A2	Private	Dry	156	Kurra Appa Rao
			546/3A Full	Private	Dry	10	Kurra Nageswara Rao
			546/4A2	Private	Dry	272	Kurra Appa Rao
			546/6B	Private	Dry	122	Kurra Appa Rao
			546/7A Full	Private	Dry	240	Kurra Nageswara Rao
			546/8A Full	Private	Dry	230	Kurra Nageswara Rao
			546/9B	Private	Dry	265	Kurra Nageswara Rao
			546/10A2	Private	Dry	491	Kurra Nageswara Rao
			546/11B	Private	Dry	297	Kurra Nageswara Rao
			546/12B2	Private	Dry	587	Kurra Nageswara Rao
			636/B1C1B	Private	Dry	473	Kuchi Buchi Venkateswara Rao
			636/B1A2	Private	Dry	281	Kurra Sivarama Krishna Prasad (Nani)
			636/B1A3	Private	Dry	243	Parsa Ramchandrar Anand (M/s.Swarna Tollway Pvt. Ltd.)
			636/B1D1B	Private	Dry	932	Kuchi Buchi Venkateswara Rao
			636/B1B Full	Private	Dry	1012	M/s.Bumi Hiway Pvt. Ltd.
			635/2C2	Private	Dry	652	Donepudi Soujanya M/s. Bumi Hiway Pvt. Ltd.
			629/2A2	Private	Dry	1155	Kurra Sarojini Prathipati Lakshmana Rao
			629/3B	Private	Dry	99	Kurra Satyanarayana
		(3) Paritala	659-4B1 Full	Private	Wet	988	Shaik Abbas, Nimmagadda Vrinda D/o Krishna Prasad
			659/3C2	Private	Wet	113	Shaik Abbas, Nimmagadda Vrinda D/o Krishna Prasad
	3. Ibrahimpattam	(1) Kachavaram	16/6B	Private	Dry	444	Green Star Real Estate, Vijayawada
			16/9B	Private	Dry	159	Green Star Real Estate, Vijayawada
			17/2B	Private	Dry	226	Nekkalamputti Rambabu
			35/2B1	Private	Dry	272	Sajja Rama Mohana Rao & others
		(2) Kethanakonda	84/2B1	Private	Village Site	198	Arja Venkatapathi Rao Piska Prayer Hall site
			84/1B1	Private	Dry	432	Pamulapati Visweswara Rao
			85/6B1	Private	Dry	432	Veerapaneni Bhagyalakshmi
			86/2D3A	Private	Dry	77	Nadendla Sri Ramani
			86/3B1	Private	Dry	603	Nadendla Sri Ramani
			86/7B1	Private	Dry	789	Kolla Subbamma (Alias) Suryakumari
			89/1B1	Private	Dry	741	Nimmagadda Chalapathi Rao Nadendla Ravindra Kumar
			89/2B1	Private	Dry	202	Nadendla Ravindra Kumar
		(3) Zemi Machavaram	40/1B1	Private	Dry	1288	Nimmagadda Kondala Rao

				41/1A2A	Private	Dry	580	Vemparala Koteswara Rao
								Vemparala Srinivasa Rao
								Mallineedu Bharathi W/o Nandeswara Rao
				41/1B2A	Private	Dry	1089	Nimmagadda Satyanarayana
								Nimmagadda Appa Rao
								Nimmagadda Padmanabha Rao
								Nimmagadda Kondala Rao
				41/2B1	Private	Dry	638	Mikkilineni Sarala
								Koganti Sarvaiah
		(4) Mulapadu		28/2B1	Private	Dry	744	Atturi Geetha
								Ravi Rajya Lakshmi
								Pati Bandla Sreenivasa Rao
		(5) Ibrahimpatnam		107/2A	Private	Dry	1302	Tripuranthaka Swami Varu
				104/1B1	Private	Dry	1445	Veerapaneni
								Chakradhara Rao
								Koritala Vasumathi,
								W/o Sambasiva Rao
				117/1A2A	Private	Dry	71	Aleti Murali

[F No. NHA/11014/3A(1)/2005/NH-9/AP/Tech/GM.(CK-I)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.